



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1938 (श0)

(सं0 पटना 809) पटना, बुधवार, 5 अक्टूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

30 सितम्बर 2016

एस0ओ0 249, दिनांक 5 अक्टूबर 2016—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंग फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
फरवरी, 2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
मार्च, 2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
अप्रैल, 2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
मई, 2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
जून, 2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
योग :-			37137.71

औसत :-  $37137.71 \div 6 = 6189.61$

## अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- दवा बिक्री प्रोत्साहन नियोजन  
अधिसूचना संख्या- 2784, 2785 तिथि 28.09.2011  
गजट संख्या - 561 दिनांक 29.09.2011

## अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दिनांक 01.04.2012 + 01.10.2012 +01.04.2013 + 01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014+ 01.04.2015+01.10.2015+ 01.04.2016 से लागू परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी होगी (रुपये में)	दिनांक 01.10.2016 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	132.00+7.00+6.00+10.00+8.00 +6.00+ 1.00+8.00+3.00+8.00 = 189.00	3.00	192.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	137.00+7.00+6.00+11.00+8.00+6.00+02.00+ 8.00+3.00+8.00 = 196.00	3.00	199.00 प्रतिदिन
3	कुशल	169.00+8.00+7.00+13.00+10.00+9.00+02.00+ 10.00+4.00+10.00 =242.00	3.00	245.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	206.00+10.00+9.00+16.00+12.00 +11.00+ 02.00+12.00+4.00+13.00 = 295.00	4.00	299.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	3817.00+191.00+176.00+321.00+245.00+ 136.00+ 38.00+229.00 + 76.00+229.00 = 5458.00	76.00	5534.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हों तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2016 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2016 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-405/07 श्र०सं०-4177)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार नं०-1,

सरकार के अवर सचिव।

## 30 सितम्बर 2016

एस०ओ० 250, एस०ओ० 249, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-405/07 श्र०सं०-4178)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार नं०-1,

सरकार के अवर सचिव।

*The 30<sup>th</sup> September 2016*

S.O. 249 dated the 30<sup>th</sup> September 2016—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**SCHEDULE -1 (A)**

Month & Year	Index NO Base Year ( 2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January,2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
February,2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
March,2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
April,2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
May,2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
June,2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
<b>Total</b>			<b>37137.71</b>
<b>Average :-</b>		<b>37137.71 ÷ 6 = 6189.61</b>	

**SCHEDULE -1 (B)**

1- Name of Employment :- Sales Promotion of Medicine Employment  
 Notification No:-2784, 2785 date 28.09.2011  
 Gazette No. - 561 dated 29.09.2011

**SCHEDULE -II**

Sl. No.	Categories of Worker	Minimum Wages Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+01.04.2013 + 01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014 +01.04.2015+01.10.2015+01.04.2016 (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2016 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2016 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	Unskilled	132.00+7.00+6.00+10.00+8.00 +6.00+1.00+ 8.00+3.00+8.00= 189.00	3.00	192.00 Perday
2	Semi Skilled	137.00+7.00+6.00+11.00+8.00+6.00+02.00+ 8.00+3.00+8.00= 196.00	3.00	199.00 Perday
3	Skilled	169.00+8.00+7.00+13.00+10.00+9.00+02.00+ 10.00+4.00+10.00=242.00	3.00	245.00 Perday

Sl. No.	Categories of Worker	Minimum Wages Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+01.04.2013 + 01.10.2013+01.04.2014+01.10.2014 +01.04.2015+01.10.2015+01.04.2016 (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2016 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2016 Column (3+4)
1	2	3	4	5
4	Highly Skilled	206.00+10.00+9.00+16.00+12.00 +11.00+02.00+ 12.00+4.00+13.00= 295.00	4.00	299.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	3817.00+191.00+176.00+321.00+245.00+136.00 + 38.00+229.00 + 76.00+229.00= 5458.00	76.00	5534.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/ revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/ revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2016** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2016** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No. 5/M.W.- 405 /07 L&R - 4177)

By the order of the Governor of Bihar,  
Arun Kumar No.-1,  
*Under Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 809-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>